

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक 352/401/10/3/85

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 1985

प्रति,

समस्त वन संरक्षक, क्षेत्रीय मओप्र०
समस्त वन मंडलाधिकारी क्षेत्रीय मध्यप्रदेश
समस्त वन मंडलाधिकारी उत्पादन मध्यप्रदेश

विषय:- आदिवासियों के माध्यम से वनोपल का बैलगाड़ी द्वारा परिवहन करने बाबत् ।

---0---

पूर्व में भी विशेष रूप से यह निर्देशित किया गया था कि जहाँ कहीं भी आदिवासियों के पास बैलगाड़ी उपलब्ध हो, उन्हें वनोपज में परिवहन हेतु सम्पूर्ण रूप से योगदान दिया जाये, जिससे कि उनके वित्तीय स्थिति में सुधार को समुचित जोड़कर विशेषकर आदिवासी हितग्राहियों को जहाँ-कहीं भी बैलगाड़ी का प्रदाय किया है, उन्हें वनोपज परिवहन कार्य से जोड़ना भी आवश्यक है ।

अतः उपरोक्त विषय के संबंध में समस्त संबंधित व मंडलाधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिये जाते हैं कि वे अधिक से अधिक मात्रा में आदिवासियों को बैलगाड़ी के माध्यम से वनोपज परिवहन का कार्य दें । इसमें कोई भी असावधानी दर्शाई गई तो संबंधित वनमंडलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तदायी ठहराया जायेगा ।

इस संबंध में की गई कार्यवाही से समय समय पर मुख्य वन संरक्षक उत्पादन को सूचित करते रहें ।

सही/-व्ही.जी.निगम

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय वन महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/निस्तार/123/1609

भोपाल, दिनांक 16-1-86

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक
समस्त वन संरक्षक,
समस्त वन मंडलाधिकारी मध्यप्रदेश

विषय:- प्रोजेक्ट बैलगाड़ी का क्रियान्वयन.

संदर्भ:- म.प्र. शासन वन विभाग का ज्ञाप क्र.30/51/79/10/3 दिनांक 22-10-85.

---0---

बैलगाड़ी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु शासन वन विभाग के पत्र क्र.30/51/79/10/3 दिनांक 22-10*85 की प्रतिलिपि तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

वन विभाग के समस्त वार्षिक कूपों से जहाँ से जलाऊ का निर्वर्तन किया जाता है, शासन निर्देशानुसार वही पर परिवहन बैलगाड़ी द्वारा ही करवाया जाये ।

संलग्न-एक

सही-वन महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल